

—प्रेस नोट—

दिनांक -13.10.2020

थाना मड़िहान पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ ₹ 9,430/- बरामद—

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 11.10.2020 को थाना मड़िहान क्षेत्र के धनसिरिया(तेलियापुर) ग्राम निवासी अनिक कुमार सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर तहरीर दिया गया कि दिनांक 10.10.2020 को सुबह रिश्तेदारी में तेरहवीं में गया था कि सायं वादी के घर में घुसकर अज्ञात चोरों द्वारा अलमारी में रखे ₹ 30,000/- नगद व आभूषण चोरी कर लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर चोरी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.10.2020 को उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी राजगढ़ थाना मड़िहान मय हमराह द्वारा अभियुक्त 1- अवधेश पुत्र रामसिंह निवासी चन्दनपुर(खोराडीह) थाना अहरौरा मीरजापुर, 2- लालबाबू पुत्र स्व0 बाढू निवासी खोराडीह थाना अहरौरा मीरजापुर को सोनवर्षा रेलवे क्रासिंग के पास से समय 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी किया हुआ ₹ 9,430/- बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होंने आभूषण को बेचकर अर्जित पैसे को आपस में बांट लिए थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1- अवधेश पुत्र रामसिंह निवासी चन्दनपुर(खोराडीह) थाना अहरौरा मीरजापुर, उम्र करीब- 23 वर्ष।
- 2- लालबाबू पुत्र स्व0 बाढू निवासी खोराडीह थाना अहरौरा मीरजापुर, उम्र करीब-22 वर्ष।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

- 1- उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी राजगढ़ थाना मड़िहान मीरजापुर।
- 2- का0 धनन्जय कुमार राय चौकी राजगढ़ थाना मड़िहान मीरजापुर।
- 3- का0 अविनाश कुमार सिंह चौकी राजगढ़ थाना मड़िहान मीरजापुर।

